

# जातीय समानता को बढ़ावा देने के मौजूदा और योजनाबद्ध उपाय

## हांगकांग उत्पादकता परिषद ( हांगकांग प्रोडक्टिविटी काउन्सिल )

हांगकांग उत्पादकता परिषद (HKPC) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जो 1967 में संविधि द्वारा स्थापित किया गया था, ताकि हांगकांग के उद्यमों के सहयोग के लिए एकीकृत उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवीन सेवा प्रस्तावों के माध्यम से उत्पादकता उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। HKPC, i4.0 और e4.0 द्वारा हांगकांग के पुनः औद्योगिकीकरण को सहजता से सशक्त बनाने में प्रवीण और विशेषज्ञ है - जो उद्यमों और उद्योगों को व्यावसायिक प्रदर्शन में उन्नति, कम परिचालन लागत, उत्पादकता में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि में मदद करने के लिए R & D, IoT, बड़े डेटा एनालिटिक्स, AI और रोबोटिक प्रौद्योगिकी विकास, डिजिटल विनिर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| संबंधित सेवाएं                       | <ul style="list-style-type: none"><li>● HKPC उद्योग को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ तकनीकी और प्रबंधन परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है।</li></ul>  |
| मौजूदा उपाय                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● सेवा प्रतिपादन<ul style="list-style-type: none"><li>- HKPC की परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं जहां लागू हो, अंग्रेजी और / या चीनी में वितरित की जाती हैं जहां लागू हो।</li></ul></li><li>● सूचना संचार:<ul style="list-style-type: none"><li>- आम जनता की समझ में आसानी के लिए HKPC की निगमित जानकारी और सेवाओं को इसकी वेबसाइट पर द्विभाषिक रूप (अंग्रेजी और / या चीनी) में प्रकाशित किया जाता है।</li><li>- ईमेल या फोन के माध्यम से सार्वजनिक पूछताछ जहां लागू हो, अंग्रेजी और / या चीनी में संचालित की जाती है।</li></ul></li><li>● कर्मचारियों का प्रशिक्षण:<ul style="list-style-type: none"><li>- EOC के साथ समय-समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से जातीय संवेदनशीलता, सांस्कृतिक विविधता और जातीय भेदभाव अध्यादेश (RDO) की समझ के बारे में कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाना।</li></ul></li></ul> |
| भविष्य के काम का मूल्यांकन           | <ul style="list-style-type: none"><li>● HKPC मौजूदा उपायों को लागू करना जारी रखेगा, और जातीयता के संबंध में तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से इसके द्वारा प्रदान की गई सेवा का आकलन करेगा और जहां आवश्यक होगा वहां सुधार करेगा।</li></ul>   |
| किए गए / किए जाने वाले अतिरिक्त उपाय | <ul style="list-style-type: none"><li>● HKPC सेवाओं और उपायों को लागू करते समय विभिन्न जातीय समूहों की जरूरतों का अवलोकन करना जारी रखेगा, ताकि जातीय पृष्ठभूमि की परवाह</li></ul>   |

परवाह किए बिना, जनता के सभी सदस्यों को समान रूप से सेवाएं या जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

- HKPC हमारी सेवाओं या सूचना को जहाँ आवश्यक होगा वहाँ 8 भाषाओं (यानी बहासा इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली, तागालोग, थाई, उर्दू, वियतनामी और पंजाबी) में उपलब्ध कराएगी।

जातीय समानता को बढ़ावा देने के मौजूदा और योजनाबद्ध उपायों से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनल्स के माध्यम से हमारे मानव संसाधन प्रबंधक से संपर्क करें -

टेलीफोन नंबर : : 2788 5091

फैक्स नंबर : : -

ई-मेल : : [agnes@hkpc.org](mailto:agnes@hkpc.org)

डाक का पता: : HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon

**हांगकांग उत्पादकता परिषद**

**जून 2021**